PUBLIC SERVICE COMMISSION, UTTAR PRADESH

Advertisement No. 6/2011-12 Date 17.03.2012

LAST DATE FOR THE RECEIPT OF APPLICATION FEE IN THE BANK: 13th April, 2012 CLOSING DATE FOR THE RECEIPT OF APPLICATIONS: 17th April, 2012

"SPECIAL NOTICE:- Applications will be accepted only when fee is deposited in the Bank upto prescribed last date for fee submission. If the fee is deposited in bank after prescribed last date permanent/Pensionable (as latest Govt. rule), Reservation- Unreserved. for fee submission, the candidature of the candidate will be rejected and application will not be accepted. Once fee deposited in the bank will not be refunded to the candidate in any condition. It will be responsibility of the candidate to deposit fee in the bank upto prescribed last date for fee submission and submit the application upto prescribed last date for submission of applications.

No certificates/mark sheets are required along with 'On line application forms'

NECESSARY INFORMATION TO APPLICANTS FILLING THEIR APPLICATION THROUGH ON-LINE

This advertisement is also available in the Commission's website http://uppsc.up.nic.in. The On-line application system is applicable for applying against this advertisement. On-line application may be filled from 17th March, 2012. Application sent through any other mode shall not be entertained. Candidates are advised to apply On-line only. In connection with On-line application, candidates are advised to:-1. Go through thoroughly the directions given in Appendix-1 and

http://uppsc.up.nic.in the following two options shall be available. On-line advertisement.

Off-line advertisement.

candidate may click "View Advertisement" to see the desired advertisement. By doing so, the full advertisement will display. Now, the clicking of "Apply" will provide full details post wise of the advertisement against the post/exam. for which a candidate wants to apply, the candidate Registration should be clicked, there upon the format will appear in the screen, in which the candidate will fill in the desired information. The specimen is given at **Appendix-2** of the displayed advertisement where "**On-Line Application**" procedure is mentioned, such advertisement will remain available on the website of

First Stage:- On the specified website of the Commission, the Candidate shall click 'Candidate's Registration' and fill in On-line information in the format and register himself. Thereafter, the candidate shall print the Registration slip and take a copy of the same to preserve with him. The specimen of the Registration slip is available at the **Appendix-3**. Also, get an E-Challan print out of the State Bank of India or Punjab National Bank, the specimen of which are given at Appendix-4 and Appendix-5 respectively. This may be noted that at Gazetted/permanent. Reservation- Reserved for S.C. candidates of the next stage of filling the application, the applicant shall be required to enter correctly the registration number at the specified space.

Second Stage:- Along with E-Challan (from the first stage the name of the Bank selected by the candidate is printed on the Challan), the candidates will deposit the prescribed amount with E-Challan by nimself in any branch of the bank in any district and receive a copy of the same from the Bank, which will be preserved by the candidate. The Bank will indicate Transaction ID / Journal No. and date in the copy of the E-Challan returned to the candidate which will be used by the candidate at the Third Stage, while filling in the applications.

Third stage: - After depositing the fee in the Bank, the candidate two day after on the next working day (after 2.00 pm) shall enter information On-line in the format, available in Commission's website by clicking "Submit Application Form". Also the photo and signature, duly scanned shall be uploaded, The specimen of the same is given at Appendix-6.

The candidate should scan his photograph and signature in the prescribed size (the size will be mentioned at the specified spot in the On-line application). This should also be kept in notice that the photo should be latest passport size. In case the photo and signature, scanned in the prescribed size, are not uploaded, then the On-line system will not accept it. The procedure related to scanning of the photo and signature is laid down in the **Appendix-7**. After filling in all entries in the format, the candidate may click "View application form" to see for himself that all entries and informations are correctly entered and after satisfying himself should click "Submit" to forward the same to the Commission. It is essential that the candidate should fill all informations On-line correctly according to the directions given and click the 'Submit' button by the last date prescribed for depositing the application form. If the candidate does not click the "Submit" button, the application shall not reach the Commission. The candidate shall be accountable for this. After clicking the 'Submit' button, the candidate may take a print-out of the application to preserve it with himself. In the event of any discrepancies, the candidate will be required to submit the said print-out in the office of the Commission. Otherwise his request shall not be entertained.

4. The Application once submitted, will not be allowed to be

5. Application Fee: After filling in the Candidates 'Registration' format of the On-line application, the candidate shall procure the print-out of the E-challan in duplicate. The E-Challan will be used to deposit the fee in any of the branches of State Bank of India or

- 1. Unreserved (General) Rs. 80/-
- 2. Other Backward Class - Rs. 80/-- Rs. 40/-
- 3. Scheduled Caste 4. Scheduled Tribe
- 5. Dependants of the freedom fighters
- 6. Handicapped
- 7. Ex-Serviceman
- According to the original category mentioned from SI. Nos. 1 to 4.

- Rs. 40/-

According to the original category mentioned from SI. Nos. 1 to 4.

- 8. Women According to the original category mentioned from SI. Nos. 1 to 4.
- 6. If the claims of the candidates given in their applications are not found true, they can be debarred from all the future examinations and selections made by the commission including other appropriate
- 7. If the candidates want some correction or change in their submitted applications, they can submit another fresh complete applications with desired corrections along with prescribed fee within the last notified dates of the advertisement. The application fee deposited with the prior application will neither be returned nor adjusted in any condition.

Applications are invited against following posts from the candidates. Number of posts may increase or decrease.

Pay Scale- Rs. 15600-39100/- and Grade pay Rs. 6600/-. (Deptt. No. S-9/01), **Period of Probation:** 02 years, **Qualification:**- A- **Essential**-(a) Graduate in Engineering in any of the following disciplines:- 1- Industrial Engineering, 2- Mechanical, 3- Electrical, 4- Textile, 5- Orientical, (b) Oriented have undergone courses on the following subjects organised by a recognised institution/Productivity Council/a reputed firm of consultants given to reserved category candidates of U.P. as per Rules. The Upper age limit in case of a candidate who is trainee in Public Works Department. 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 2- Work measurement, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 3- industrial Engineering: 1- Work Study, 3- industrial Engineering: 1- in Engineering, 2- Mechanical, 3- Electrical, 4- Textile, 5- Chemical. (b) Should Motion Study. B- **Preferential-** (a) Post graduate degree in Business Administration. Must possess experience of at least 03 years Industrial Engineering work in any of the following fields: -1 - Job analysis, 2 - Work
Study, 3- Method Study, 4- Quality Control, 5- Fixation of time standard
and Job Schedule, 6- Design of incentive Scheme or at least 03 years

(Special Recruitment)

(1) (One) Post Assistant Engineer Traffic and Transportation
Planning, Nature of post- Permanent/non Gazetted/Non pensionable. experience of having worked in any workshop/Factory/Industrial Engineering consultant's Firm of repute. (b) A candidate who has: I-Served in the Territorial Army for a minimum period of two years. Or II-Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment. Age-21 to 35 years (Relaxation in age as per Rules).

HEALTH AND FAMILY WELFARE INSTITUTE, U.P.

apply accordingly.

2. When the candidate clicks "ALL NOTIFICATION/ ADVERTISEMENT DETAILS" on the Commission's website gazetted and Temporary. Which is likely to be continued. Reservation-02 gazetted and Temporary. Which is likely to be continued. **Reservation-**02 posts reserved for S.C. candidates of U.P. and 03 posts for O.B.C. candidates of U.P., Horizontal Reservations will be as per rules. Pay Scale-Rs. 9300/- - 34800/-. Probation Period- 01 year, (Deptt. No.- Seva-8/8) "On-line advertisement" shall automatically display the list of all advertisements, wherein On-line application system is available. The Social Science, Statistics or Mathematics with Statistics and minimum two years experience of Research Works. Age Limit-24 to 35 years (upper age limit of reserved categories candidates shall be relaxable as per rule). Important Instruction- Candidates must ensure to have all certificates of their claim about age, essential qualification, No objection certificate (if they are in Govt. Service) and reservation at the time of filling the application.

TRADE TAX DEPTT., U.P.

12(Twelve) Posts of Statistical Officer Trade Tax, Nature of post-Gazetted/Temporary. Reservation- (i) General 07 (ii) O.B.C. 03 (iii) S.C. the application form upto the last date for application submission. The application On-Line for examination/post in which they are interested.

3. The work relating to On-line filling shall involve three steers. experience of statistical work. (b) Knowledge of operation of calculating machines. (c) Working Knowledge of Hindi including writing in Devnagri Script. (ii) Preferential Qualification- (a) A candidate who has- (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of 2 years or (2) Obtained a 'B' Certificate of National Cadet Corps, shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitement. **Age-** 21 years to 35 years (Relaxation in age according to Rules).

FIRE SERVICE DEPTT., U.P. (Home Deptt.

Gazetted/permanent. Reservation- Reserved for S.C. candidates of U.P.. Pay Scale- Rs. 15600-39100/- (Grade pay Rs. 5400/-). (Deptt. No. S-1/2). Qualifications- Essential- Three years degree in Fire Engineering from National Fire Service College, Nagpur. Or Any equivalent degree from a recognised Institution of comparable status. or Divisional Officers Course from National Fire Service College, Nagpur or Equivalent course from recognised Institution of comparable status. Preferential-(1) Knowledge of automobile repairing. (2) Experience of practical Fire fighting and handling major conflagration. A candidate who has:- (i) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years or (ii) Obtained "B" Certificate of the National Cadet Corps, shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment. Age limit-23-35 years (Age relaxation as per rules).

HORTICULTURE AND FOOD PROCESSING DEPTT. U.P.

01(One) Post of Investigator cum Computer, Nature of post- Non gazetted/Temporary. Reservation- Reserved for S.C. candidates of U.P., Pay Scale- Rs. 9300-34800/- (Grade pay Rs. 4200/-), (Deptt. No.-S-1/1), Qualifications- Essential- B.A./B.Sc. with Statistics/ Mathematical Statistics. Preferential- M.A./M.Sc. with Statistics or equivalent Qualification or experience of collecting and analysing data of horticultural crops. A candidate who has:- (one) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years or (two) Obtained a "B" Certificate of the National Cadet Corps, shall other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment. **Age limit-**21-35 years (Age relaxation as per rules).

PUBLIC WORKS DEPARTMENT U.P.

50(Fifty) Posts of Junior Engineer (Computer), Nature of post- Non gazetted/Permanent. Reservation- 03 posts are reserved for Scheduled Cast, 04 posts are reserved for Scheduled Tribes and 10 posts are Cast, 04 posts are reserved for Scheduled Tribes and 10 posts are reserved for Other Backward Class candidates of U.P. Horizontal Reservation- Admissible as per Government Rules of U.P. (1) 10 posts are reserved for Female candidates, 01 post is reserved for D.F.F., 02 posts are reserved for Ex-Army personnel and 01 post for one leg affected (Right or Left) (O.L.), one Arm affected, (Right or Left) (O.A.), partially blind (P.B.) and partially deaf (P.D.) candidates of U.P. Pay Scale- Rs. 9300-34800/- Grade pay Rs. 4200/-. (Deptt. No.- Sewa-6/28), Qualification The selected candidates may be transfered to any government Unani Medical College of the State on any equivalent post. Note- (1) The new pension scheme will be applicable which is to be as declared by U.P. Government. (2) Female candidates of unreserved posts are reserved for Ex-Army personnel and 01 post for one leg category of U.P. shall be produced certificate of domecile in U.P. on behalf of their father, other wise they may not be entitled for female reservation of said category. (3) Candidates will have to annexe all semester's marksheets in which maximum marks/obtained mark's Qualification Location and the category of U.P. shall be produced certificate of domecile in U.P. on behalf of their father, other wise they may not be entitled for female reservation of said category. (3) Candidates will have to annexe all semester's marksheets in which maximum marks/obtained mark's Qualification Post of the State on any equivalent post. **Qualification Essential-** (i) Candidate must have completed Diploma Engineering from any mentioned in appendix "B" of Public Works Department Computer Service Rules, 1968 given on the website. (ii) A good knowledge of reading and writing Hindi in Devanagri Script. **Note-** and Urdu or Arabic or Persian. (5) Experience Certificate should be of full Candidates for direct Recruitment is required to produce a certificate time paid post in an institution recognised by Government and issued by issued by the Principal of the institution in which he last studied, or any orint-out of the E-challan in duplicate. The E-Challan will be used to deposit the fee in any of the branches of State Bank of India or knowledge of Hindi in Devanagri Script. But this certificate will not be required from those applicants, who have passed their High School or U.P. CHIKITSA SHIKSHA (AYURVEDIC) DEI The fee will not be allowed to be deposited by any other mode equivalent examination with Hindi as one of the subjects. Preferential 02(Two) Posts of Principal/Superintendent in Government Ayurvedic except E-Challan. The above fee, according to the category, is as Qualification- Those applicants (1) Who have served in the Territorial Army for a minimum period of two years or (2) Who have obtained a "B" Certificate of the "National Cadet Corps" (3) Who have successfully completed one year's training as trainee in Public Works Department, Age-21-35 years. Upper age relaxation will be given for reserved category candidates of U.P. as per rules. The Upper age limit will be greater by one year for those candidates who are trainee in Public Works Department.

PUBLIC WORKS DEPARTMENT U.P. (U.P. Subordinate Engineering Services)

543(Five Hundred Forty Three) Posts of Junior Engineer (Civil), Nature of post- Non gazetted/Permanent. Reservation- (1) 61 Posts candidates. (4) 27 Posts are reserved for Ex-Serviceman candidates of U.P., **Pay Scale-** Rs. 9300-34800/-, Grade pay Rs. 4200/-, (**Deptt. No.-** as declared by U.P. Government. (2) Candidates will have to annexe all Sewa-6/29), Qualification Essential- (i) Applicants must have obtained overseers certificate (Diploma in Civil Engineering) from one of the institutions mentioned in Appendix- "B" of the U.P. public Works of the certificates. (3) Experience Certificate should be of full time paid post time to time. Appendix B is given on the website. (ii) A certificate from the authority and it should be counter signed by Registrar/Director of State

District in Uttar Pradesh that he can easily read and write Hindi in Devanagri Script. Note- This certificate will not be required from those applicants who have passed their High School Examination with Hindi as one of the Subject. **Preferential Qualification-** Preference will be given to the applicants- (i) Who have served in the Territorial Army for a minimum period of two years or (ii) Who have obtained a 'B' certificate of the N.C.C. (iii) Who have successfully completed one years training as trainee in Public Works Department. **Age-**21-35 years. Upper age relaxation will be

U.P. PALIKA (CENTRALIZED) TRAFFIC ENGINEERING SERVICES

Reservation- 01 Post reserved for Scheduled Cast candidate of Uttar Pradesh only. **Pay Scale**- Rs. 8000-275-13500 Revised pay scale Band-3 Pay Band/Pay Scale Rs. 15600-39,100/- (Grade pay-Rs. 5400/-). (**Deptt. No.-** S-10/7), **Qualification-** Degree or Diploma in Civil Engineering from any recognized College or University as recognized by Institution of Engineers (India) and on the basis of which a candidate is exempted from section "A" and "B" of the Associate Membership examination of the Institution or must have passed section "A" and "B" of Associateship examination in Civil Engineering of Institution of Engineers (India). **Preferential Qualification-** Being other things equal nose candidates will be given preference- (1) who have served in the Territorial Army for a minimum period of two years (2) obtained a "B" certificate of National Cadet Corps. **Age-** 21 to 35 years. Age relaxation to the reserved category candidates will be according to rules. In case of a person who has already rendered one year service or more in any of the Centralized service or in the Palika, the maximum age limit shall be greater to the extent; he has rendered continuous service or a period of seven years which ever is less

ZILA PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT, U.P.

06(Six) Posts of Assistant District Panchayat Raj Officer (Technical) (Backlog), Nature of post- Permanent/non Gazetted/ pension as the policy of Government. Reservation- 05 posts are reserved for Scheduled Caste candidate of Uttar Pradesh & 01 post of other backward class candidate of Uttar Pradesh. Pay Scale- Rs pay Band- Pay Scale Rs. 9300-34800/- (Grade pay-Rs. 4200/-). (Deptt. No.- S-10/8), Qualification- A Diploma in Mechanical Engineering from any recognized Institution. Preferential Qualification- Being other things equal those candidates will be given preferences- (1) who have served in the Territorial Army for a minimum period of two years or (2) obtained a "B" certificate of National Cadet Corps.

Age- 21 to 35 years. Relaxation in age as per Government orders.									
U.P. CHIKITSA SHIKSHA (UNANI) DEPTT.									
SI.							Deptt.		
No.	Post		of	of	of	No. of	No.		
			U.P.	U.P.	U.P.	Posts			
1	Lecturer Jarahat	02	01	-	01	04	S-11/01		
2	Lecturer Hifzane Sehat	-	01	-	-	01	S-11/02		
3	Lecturer Moalejat	02	02	-	01	05	S-11/03		
4	Lecturer Niswan- O-Atfal	-	01	1	-	01	S-11/04		
5	Lecturer Kulliyat	-	01	-	-	01	S-11/05		
6	Lecturer Tashreeh -UI-Badan	-	01	-	01	02	S-11/06		

Horizontal reservation- Horizontal reservation for female candidates of U.P. will be allowed according to order and policy of U.P. Government Nature of posts- Gazetted and Permanent. Pay Scale- Rs. 15600 39100/-, grade pay-Rs. 5400/-. **Qualification-Essential-** (1) Five year's Degree in Unani from a University established by law or the Board of Indian Medicine, Uttar Pradesh or any other State Board or Faculty which is registrable under the United Provinces Indian Medicine Act, 1939. (2) Post-Graduate qualification of the subject from a recognised institution. (3) Adequate knowledge of Hindi, English and Urdu or Arabic or Persian. (4) In the case of Lecturer in Unani, if Unani Post-Graduates in the subjects of Jarahat Chashm, Amraze Ujan and Halaq are not available, candidates holding graduate degree in Unani having three year's teaching experience in these subjects may be considered and it such Unani graduates are not available, candidates holding M.B.B.S Degree, registered with Medical Council of India may also be considered Preferential Qualification- Research work and publication of original paper's and book's. Age-Minimum - 25 year's, Maximum-40 year's (age relaxation as per rules for reserved category). Other condition and qualification- The selected candidates may be transfered to any Regarding essential qualification No.-(3) candidates will have to annexe appointing authority and it should be counter signed by Registrar/Director of State Unani Medical Council or by a competent authority of Government.

U.P. CHIKITSA SHIKSHA (AYURVEDIC) DEPTT.

Medical Colleges of the State, Nature of post-Gazetted and permanent Reservation- 01 post is reserved for O.B.C. candidates of U.P. and 01 post for General category (unreserved). Pay Scale- Pay band Rs. 37400-67000, grade pay Rs. 8700/-. (Deptt. No.- S-11/7), Qualification Essential- (1) Five year's Degree in Ayurveda from a University established by law or five year's Degree from the Board of Indian Medicine, Uttar Pradesh or from any other State Board or Faculty which is registrable under the United Provinces Indian Medicine Act, 1939. (2) Twelve year's teaching experience (ten vear's only in case of Post-Graduate) including atleast five years administrative experience as Professor or as Head of the Department. (3) Working knowledge of Hindi, English and Sanskrit. are reserved for Scheduled Tribe candidates of U.P., Horizontal Preferential Qualification (1) Post-Graduate qualification from a Reservation- (1) 108 Posts are reserved for Female candidates of U.P. recognised institution. (2) Research work and publication of original (2) 10 Posts are reserved for the D.F.F. candidates of U.P. (3) 16 Posts paper's and book's. Age- Minimum - 35 year's, Maximum-50 year's (age are reserved for the P.H. candidates of U.P., 13 Posts for one leg affected (Right or left) (O.L.) candidates. 01 Post for one arm affected (Right or left) (O.L.) candidates may be transfered to any left) (O.A.), and 02 posts for Partially blind (P.B.)/Partially deaf (P.D.) Government Ayurvedic Medical College of the State on any equivalent Department Subordinate Engineering Rules-1951 as amended from in an institution recognised by Government and issued by appointing head of the institution where he last studied or from the Collector of a Ayurvedic Medical Council or by a competent authority of Government.

related certificate/marksheet about adequate knowledge of Hindi English and Sanskrit.

DEPARTMENT OF CULTURE, U.P

(i) 01(One) Post of Assistant Director (Decorative Art) State Museum Lucknow, Nature of post- Gazetted/Permanent. Reservation-Unreserved. Pay Band- Rs. 9300-34800/- Grade Pay-Rs. 4600/-(Deptt. No.- S-3/10), Essential Qualifications- 1-A Post Graduate Degree in History or History of Art from a University established by Law in India or a degree recognized by the Government as equivalent there to. **Preferential Qualifications-** Being other things equal the candidate will be given preference in the matter of direct recruitment who has- 1-Diploma in Museology from an Institution recognized by the Government, or two Years working experience in decorative Art in a museum of repute. 2- Published work or articles on any aspect of Decorative Art. 3- Served in Territorial Army for a minimum period of 02 years. 4- Obtained 'B' Certificate from National Cadet Corps. Age- 21 35 years. (Relaxation in age as per rule).

(ii) 01(One) Post of Assistant Director (Art ware) under State Museum Lucknow, Nature of post- Gazetted/Permanent. Reservation- Unreserved. Pay Band- Rs. 9300-34800/- Grade Pay-Rs. 4600/-. (Deptt. No.- S-3/11), Essential Qualifications- 1- A Post Graduate Degree in History from a University established by Law in India or a degree recognized by the Government as equivalent thereto. 2-02 years experience of working in reputed museum of Art ware of Textiles of Ethnographics Arts. Preferential Qualifications- Being other things equal such candidate will be given preference in the matter of direct recruitment who has- 1- A Diploma in Museology from an Institution recognized by the Government, or two Years working experience in decorative Art in a museum of repute. 2- Published work or articles on any aspect of Art ware, Textiles or Ethnography. 3- Served in Territorial Army for a minimum period of 02 years. 4- Obtained 'B' Certificate from National Cadet Corps. Age-21-35 years. (Relaxation in age as per rule)

U.P. STATE ARCHAELOGY DEPARTMENT

01(One) Post of Draftsmen, Nature of post- Non Gazetted/ Permanent. Reservation- Unreserved. Pay Band- Rs. 5200-20,200/-Grade Pay-Rs. 2800/-. (**Deptt. No.-** S-3/9), **Essential Qualifications-**1- Must have passed High School examination of the Board of High School and Intermediate education, Uttar Pradesh or an examination recognized by the Government as equivalent there to. (2) A certificate or Diploma in Civil Engineering or in Draftsmanship (Civil) or in Architectural Assistantship from an Institution recognized by the Government. **Preferential Qualifications-** Being other things equal the candidate will be given preference in the matter of direct recruitment who has- (1)
One year experience of Drawing work or experience of Archeological
Drawing work. (2) Served in the Territorial Army for a minimum period of institution, where he received last education or by a Gazetted Officer.

10. Now to complete online application submission you just click on two years, or (3) Obtained 'B' Certificate of National Cadet Corps. **Age-**9. Candidates serving under Central or State Government will have to 21-35 Years (Relaxation in age as per rules).

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT U.P.

12(Twelve) Posts of Workshop Superintendent, Nature of post- Gazetted/Temporary. Reservation- 03 post reserved for S.C. of U.P. and 03 post reserved for O.B.C. of U.P., Pay Scale- Rs. 15600-39100 Grade Pay-Rs. 5400/-. (Deptt. No.- S-12/02), Qualifications-Essential- (1) Degree in Mechanical Engineering or equivalent qualification and two years Industrial experience in production or Maintenance. or Diploma in Mechanical Engineering or equivalent qualification and eight years Industrial experience in Production or Maintenance. (2) Knowledge of Hindi. **Note:-** Industrial experience of Government Institutions, Public sector undertakings, OR Limited organisations only will be acceptable. Preferential Qualifications- (1) Masters degree in respective discipline. (2) One year's industrial experience. Note: Experience of Government Institutions, Public Sector undertakings or Limited Organisations only will be acceptable. Age- 21-40 Years (Relaxation in upper age limit as per rules).

(ii) (Engineering Branch)

• •	(ii) <u>(12) gire or in g Dranton y</u>							
SI.	Deptt.	Name of	S.C.	S.T.	O.B.C.	GEN.	Total	
No.	No.	the Post						
1	S-12/3	Lecturer, Mechanical	09	01	10	20	40	
		Engineering						
2	S-12/4	Lecturer, Civil Engineering	02	01	03	05	11	
3	S-12/5	Lecturer, Chemical Engineering	02	00	04	06	12	
4	S-12/6	Lecturer, Computer	11	01	14	27	53	
5	S-12/7	Lecturer Architecture	02	00	05	80	15	
6	S-12/8	Lecturer, Instrumentation and control	01	00	01	03	05	
7	S-12/9	Lect. Saddlery Technology	02	00	03	05	10	
8	S-12/10	Lecturer Information Technology	04	00	06	10	20	

Nature of post- Gazetted/Temporary. Pay Scale- Rs. 15600-39100 Grade Pay-Rs. 5400/-. Qualification-Essential- (1) Degree with 55% marks in respective discipline of Engineering/Technology or A.M.I.E. (India) (2) Knowledge of Hindi. Preferential- (1) Master's degree in respective discipline. (2) One year's Industrial experience. (Note:- Experience of Government Institutions, Public Sector Undertakings Or Limited Organisations only will be acceptable.) **Age-**21 to 40 years.

(Non Engineering Branch)

l ()	(gg					
SI. No.	Deptt. No.	Name of the Post	S.C.	S.T.	O.B.C.	GEN.	Total
1	S-12/11	Lecturer Commerce	00	00	01	01	02
2	S-12/12	Lecturer Hindi	00	00	00	01	01
3	S-12/13	Lecturer English	03	00	04	06	13

Nature of post- Gazetted/Temporary. Pay Scale- Rs. 15600-39100 Grade Pay-Rs. 5400/-. Qualification-Essential-(1) Second class Master's degree with atleast 55% marks in concerned subject. (2) Knowledge of Hindi. Preferential-B.Ed. or equivalent qualification. Age-21-35 years (Higher age limit relaxable on the advice of the Commission, in favour of the otherwise well qualified candidates.

(iv) 04 (Four) Posts of Lecturer Stenography, Nature of post-Gazetted/ Temporary. Reservation- 02 post reserved for O.B.C. of U.P. Pay Scale- Rs. 15600-39100 Grade Pay-Rs. 5400/-. (Deptt. No. S-12/01), Qualification-Essential- (1) Bachelors Degree with at least 55% marks from a University established by Law in India Or an equivalent qualification. (2) Diploma in Stenography and Secretarial practice from a recognised Institution of minimum two years duration or an equivalent qualification. (3) Three years Industrial or teaching experience in Stenography and Secretarial practice. Preferential- Master's degree from a recognised university or an equivalent qualification. **Age-** 21 to 35 years (The upper age limits are relaxable on the advice of the Commission favour of otherwise well qualified candidates).

(v) (Engineering Branch)

		_					
SI.	Deptt.	Name of the	S.C.	S.T.	O.B.C.	GEN.	Total
No.	No.	Post					
1	S-12/17	Lecturer Electrical Engineering	07	01	08	25	41
2	S-12/18	Lecturer Electronics Engineering	09	01	11	20	41

Experience of unpaid or part time post will not be acceptable. (4) marks in respective discipline of Engineering/Technology or A.M.I.E. (India) also available in the "All Notification/Advertisement" in Candidate Regarding essential qualification No.-3 candidates will have to annexe (2) Knowledge of Hindi. Preferential Qualification-(1) Master's degree in segment page. respective discipline. (2) one year's Industrial experience. (Experience of Government Institutions, Public sector undertakings or limited organisations only will be acceptable.) . Age-21-40 years.

3. Place the mouse over the "All Notification/Advertisement" menu to view details of notifications with respect of vacancies/post.

4. Click on "All Notification / Advertisement" link would take you to the list

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, U.P.

SI. No.	Deptt. No.	Post	S.C.	S.T.	O.B.C.	GEN.	Total
	S-12/14	Lecturer Physics	02	01	03	06	12
_	S-12/15	Lecturer Chemistry	01	00	03	04	08
3	S-12/16	Lecturer Mathematics	02	01	03	04	10

Nature of post- Gazetted/Temporary. Pay Scale- Rs. 15600-39100 Grade Pay-Rs. 5400/-. Qualification-Essential- (1) Second class Master's degree with atleast 55% marks in concerned subject. (2) Knowledge of Hindi. Preferential- B.Ed. or equivalent qualification. **Age-** 21-35 years.

GENERAL INSTRUCTIONS

Last Date for the Receipt of Application fee in the bank: 13-04-2012 Closing Date for Receipt of Applications: 17-04-2012 The candidate must carefully study the detailed advertisement and

may apply for the post only when he is eligible for the concerned post. 2. In no circumstance, applications shall be accepted after the last prescribed date and time. Applications found without requisite informations and without photograph and signature, even when received in time, will be summarily rejected.

The knowledge of Hindi is essential.

The date of calculation of age (except where indicated otherwise) is 01 July, 2012. The maximum age-limit shall be relaxable by five years for the candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward class and dependants of the freedom fighters of U.P.. In case of ex-servicemen, the 3 years relaxation is extra admissible in the maximum age limit in addition to total length of military service. It is essential to be retired from army upto the date of last date of receipt of application. For the physically handicapped persons (If post reserved), relaxation in age of 15 years will be admissible according to Click on "Generate E-Challan" button in candidate segment it will

5. After receipt of application in the Commission, any request for change in the qualification and category will not be entertained.

Minimum educational qualification is not sufficient for being called for interview. Mere eligibility does not entitle a candidate to be called for interview or for selection. Intimation for interview will be sent later on.

7. In case of large number of applicants for the post / posts, the Commission may hold screening test, which will be communicated in due course of time.

The original certificates are required for verification at the time of

ime of interview.

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate will be final.

The candidate coming under the reserved category, desiring penefit of the reservation, must indicate in the prescribed column of the on-line application the category/sub category (one or more than one) whatever may be, and if they fail to do so, they will be treated like a general candidate and the benefit of reservation will not be admissible to them.

12. Till the last date and time of the submission of the on-line application, it is must to click the 'Submit Button'. The candidate must take a print out of the application duly filled in and keep it safe and secure. In the event of any discrepancy, the candidate will be required to submit the print-out to the office of the Commission otherwise the request of the candidate shall not be entertained.

13. With regard to claims made in the 'On-line Application', the candidate shall submit the following original certificate/certificates in the prescribed format, when asked for by the Commission. If the certificates are not submitted in time, the candidature shall be treated cancelled.

13.1 Higher Secondary/ High School Certificate for proof of the age 13.2 Proof of degree / diploma or its equivalent qualifications to confirm the prescribed essential and preferential qualifications.

13.3 In the case of candidates physically handicapped, the certificate issued by the competent authority in the format-1 to the Government Order No. 18/1/2008-Ka-2-2008 dated 3rd February 2008.

13.4 In the case of the skilled players of the classified sports, a certificate issued by the competent authority will be required in terms of the Government Order No. –22/21/1983-Ka-2 dated 28th November 1985.

13.5 Under any reserved category/categories, for the confirmation of the claim for reservation, The caste certificate issued by District Magistrate/Additional District Magistrate (Executive)/City Magistrate/ SDM/Tehsildar in the prescribed format prescribed under Govt. Order No. 22/16/92-TC-III/Ka-2/2002 dated 22rd October, 2008 in respect of candidates belonging to the SC/ST/OBC.

13.6 Those candidates, willing to take the benefit of the reservation may obtain a certificate, issued by the competent authority, in support of the reserved category, in the prescribed format printed in this detailed advertisement and submit the same to the Commission, whenever required to do so. Those claiming more than one reserved category will be given only one such concession, which will be more beneficial. The candidates not originally domiciled in U.P. belonging to SC, ST, O.B.C., dependants of freedom fighters, handicapped, Ex-servicemen and women are not entitled to benefit of reservation. Such candidates will be treated in general category. In case of the women candidates, the certificate issued from father side will be treated valid.

14. The Commission do not advise to candidates about their eligibility. Therefore, they should carefully read the advertisement and when satisfied about their qualifications in terms of the advertisement, then

15. In the category of dependants of the freedom fighters only sons, daughters, grand-sons (son's son) and grand daughter are covered. Only such relationships with the freedom fighters are not adequate but the candidate should remain actually dependant of the freedom fighter. Drawing the attention of the candidates towards Govt. orders dated 22.01.1982, 08.03.1983 and Govt. Order No. 3014, Personnel-2, 1982 dated 18.10.1982 read with Govt. Order No. 6/1972 Personnel-2, 1982 dated 15.01.1983, it is advised that now the candidates may obtain the reservation, certificate from the District Magistrate in terms of Govt. Order No. 4/3/82-Ka-2-97 dated 26.12.1997 in the prescribed format and submit the same.

16. In the event of involvement of a candidate in the concealment of any important information, pendency of any case / criminal case, conviction, more than a husband or wife being alive, submission of facts in a distorted manner, canvassing for selection etc. The Commission reserves the right to reject the candidature and debar from appearing in the examinations and selections.

17. The change of address intimation may be sent immediately to the Commission. In order to make any correspondence with the Commission, t is essential to mention the name of the post applied for, advertisement number, Deptt. No., date of birth and registration number.

18. In case the candidates face any problem in the "On-line Application" they may get their problem resolved by contacting over phone or Website clicking 'Contact us'. A separate detailed notice in this regard will be published.

Appendix-1 "Detailed instructions to fill in the On-line Applications". The specimens at Appendix 2 to 6 are given for the purpose of making the candidates familiar with the procedure.

INSTRUCTIONS FOR FILLING ONLINE APPLICATION

Log on http://uppsc.up.nic.in to access the home page of "Candidate Segment"

Nature of post- Gazetted/Temporary. Pay Scale- Rs. 15600-39100 2. Before filling up the form candidates are advised to carefully go Grade Pay-Rs. 5400/-. Qualification-Essential- (1) Degree with 55% through the Relevant Notification published in the News Papers and

of all the active Notifications, where you can select to apply for any of the

listed notification by clicking on the link "Apply" against each notification.

5. Click on "Apply" button it will open option "Candidate Registration".

For Part-I Candidate Registration process you have to click on "Candidate Registration" option it will fetch out Candidate Basic Registration page in which the candidates have to fill fundamental information, particulars and details asked for. All pink fields are

mandatory and essential to be filled in by the candidate. Every field has clear instructions for filling up are written which should be carefully read and strictly followed by the candidates while filling up the form. Read User guidelines carefully using "User Instruction" option

The Application submission of form is divided into two options namely "Candidate Registration" and "Submit Application Form". Part -1

Now click on "Candidate Registration" option to accomplish 1st part

Candidate Basic Registration form:

Here the system asks for Candidate's **Personal Information** including 'Name', 'Father's/husband name', 'UP Domicile', 'Category', 'DOB', Gender, 'Marital status', 'Contact no', email, Qualification details and other relevant information.

After entering verification code Click on "Submit" button at bottom of the page, the second page that will display your Registration Slip where you can find your 11 digit registration number with detail that you can also take print for future reference.

The candidates are supposed to fill in the Payment Details while

filling up Part-II of the Online Application Submission.

8. After Completion of PART-I Registration. You have to go through "Generate E-Challan" and "Submit Application Form" options to

opens-up a page and ask for Candidate Registration Number and Bank Name to Generate E-Challan.

When candidate provide valid information, then click on "Generate E-Challan" button it will generate Bank Challan with respective of bank that you have to deposit in bank and they will give you candidate Challan Copy with transaction date and number for further proceeding.

The candidates may however note that Application would be treated as incomplete and rejected unless accompanied with Part-II Application Form submission.]

Part -2

Now to complete online application submission you just click or "Submit Application Form" in Candidate Segment Page.

Clicking on "Submit Application Form" button it will opens-up a page and ask for Candidate Registration Number, Fee details, Scanned photograph with signature and some your personnel details that you filled during registration process. And click on submit button & you will be moved on next page where you can fill all information to complete form submission.

[Here the candidate is required to upload the images of recent

Photograph and Signature Specimen. Images to be uploaded should be only in .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png format of size not exceeding 50 KB.]
the candidate should scan his signature, which has been put on white paper using **Black Ink** pen with his/her photograph.

Detailed Application Form:

At the top of the page there is a 'Declaration' for the candidates Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to disagree, the application will be dropped and the procedure will be terminated. Accepting to agree only will submit the candidate's Online Application.

Notification Details This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/department name and

post name

This section shows information about candidate personnel details i.e. Registration Number, candidate name, Father/ Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number.

Other Details of candidate Other details of candidate shows the information details about UF Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical

challenges **Education & Experience Details**

It shows your educational and experience details

Candidate address, photo & signature details

Here you will see your complete communication address and photo

with your signature.

Declaration segment
At the bottom of the page there is a 'Declaration' for the candidates. indidates are advised to go through the contents of the **Declaration**

After filling all above particulars there is provision for preview you detail before final submission of application form on clicking or 'Preview" button. Preview page will display all facts/particulars that you have nentioned on entry time if you are sure with filled details then click on

"Submit" button to finally push data into server with successfully

submission report that you can print.

Otherwise using "Back" button option you can modify your

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

page you can see current status of candidate.

12. On clicking "Result" option in Candidate Segment page candidate

can see result status of periodically. 13. "Interview/Exam Schedule" option in Candidate Segment page

candidate can see Interview and examination schedule details periodically.

14. On clicking "Key Answer Sheet" candidate can download key answer sheet. 15. On clicking "Admit Card/Hall Ticket" candidate can download their

Admit Card using with some basic credential of candidate 16. On clicking "List of Rejected Candidate" candidate can view

Rejected candidate list.

17. On clicking "Syllabus" candidate can view syllabus of particular examination.

[Candidates applying online need NOT send hard copy of the Online Application filled by them online or any other document/certificate/testimonial to the Uttar Pradesh Public Service Commission. However they are advised to take printout of the Online Application and retain it for further communication with the UPPSC.] [The Candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility conditions for admission to examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions.] UPPSC takes up verification of eligibility conditions with reference to original documents at subsequent stages of examination process.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: Online Application process must be completed (including filling up of Part-I and Part-II of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

Augustica the specific of the kartis is district, on, for Cardida A., ch., co.	and the second	Table 1915	1.	<u>परिशिष्ट</u> तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति
Cardina was see an arriver.	45	And the second second	प्रमाण	 ा–पत्र (प्रारुप–II)
A project common and	-		प्रशासित विभव जाता है विभिन्ना भूति	मती / कुमारी सुपुत्र / सुपुत्री श्री म तहसील नगर
CONTRACTOR NO.	No. American		जिला उत्त	तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति
Limitation and Charles	CITY CANADA			आदेश, 1950 (जैसा कि समय—समय पर संशोधित जाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार
Control Control Control	D.T. C. L.	i e	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनज	ाति के रूप में मान्यता दी गई है।
Parameters and the second	SECTION AND ADDRESS OF THE	and a	श्री / श्रीमती / कुमारी	तहसीलनगरनगर
IR of sould be a	Service See	TOUR CLEAN	जिलामें साम	
For the only of the United	BELLEVINORS.	Printer Designation and	स्थान	हस्ताक्षर
2 Control Control of the Control of	<u> </u>		दिनांक मुहर	पूरा नाम पद नाम
27 I PROPERTY THE UNIT TO THE	Contract Contract	The Court of the C		/सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / ई हो / जिला समाज कल्याण अधिकारी ।
2 Committee Comm	479	201 m	^ ' ' ' '	इ हा / जिला समाज कल्याण आधकारा वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र (प्रारुप–I)
A strange three mean automatics.	W			मती / कुमारीसुपुत्र / सुपुत्री
A District year of the control of th	The state of the state of	CC C	तहर	तील जला उत्तर डी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ०प्र० लोक सेवा
Section control to the Experience of the Experie	TANKS OF	V.	(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन	जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)
A CARDON BANKS BAN	Section 200	Charles and the same		अनुसूची—एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। ।। जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीहै।
a character to the control	be a hardy	The state of the s	पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशो।	धित) की अनुसूची—दो जैसा कि उ०प्र० लोक सेवा
and the common of	Section 15 and 15	and a street and		जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) तिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा
A CHARLESTON		THE STREET CO. LANS.	(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन	जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)
Main Company (Co.)	Sprandle 4	Corn of in in other		ांशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके ो अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पाँच लाख
1 may 22 - 21		ran por transmit depletors on the first	रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इ	इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित
<u> </u>	Comment No. 14	n'durle		ं है। श्री / श्रीमती / कुमारी प्रदेश के ग्रामतहसील
		Colliderate prog	नगर जिला नगर जिला	ा में सामान्यतया रहता है।
	Annual Control	Crosspery prodisoner	स्थान दिनांक	हस्ताक्षर पुरा नाम
		Section 2015	महर	पद नाम
времения поставления прости со пре	7000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/ सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार । OF THE INSTITUTE/HOSPITAL
5 82	TARREST .			ANNEXURE
Liber Countries Full in Str. Case Co. on increase	Louis Ca		Certificate No DISABIL	Date
Aprile 10.	1	Carrier Maries	-	Recent photograph of the candidate
Commence of the boundary of the boundary of	20 s 2 bib	S. BITCH B. PW R		showing the disability duly attested by the Chairperson of the
the or are a lightest party and and	2000	4. MIORO	This is to certified that Shri/Sr	
March March St.	Same Designation of the	N. P. C. SELECT	daughter of Shri	ageis
Carlotte II Sc	reger .	25,607000000	suffering from permanent dis	ability of following category.
Control and the control	1000	AND THE PERSON NAMED IN	A. Locomotor or cerebral pa (i) BL-Both legs affected but	
5000000	File Zones Pic	Strate	(ii) BA-Both arms affected (a) Imparied reach	
	1000	The state of the s	(b) Weakness or grip (iii) BLA-Both legs and both a	
THE WORK CORNEL TO BE THE THE TAX AND THE	vik Nilsen, And		(iv) OL-One leg affected (righ	
"a followed a voice to this are, overlap belongs for a A consumous research concerns a contemporary of the		me (mer)	(a) Imparied reach (b) Weakness of grip)
Anne de-Habi State of all secured also		Procedure relating to upload Photo	(c) Ataxic (v) OA-One arm affected	
Company to the control of the contro	Signat Guide Lines for	ure Scanning Photograph with Signatu	(a) Imparied reach (b) Weakness of grip	1
CANADA OF AN AND SEC. MARKET	1. Paste the Photo	o on any white paper as per the abo	ove (c) Ataxic	
· · · · · · ·	provided. Ensure	sions. Sign in the Signature Spa e that the signature is within the box.	(vii)MW-Muscular weakness	annot sit or stood) and limited physical endurance
EXTRO		required size containing photograph are do not scan the complete page.	nd B. Blindness or Low Vision: (i) B-Blind	
Les mont operations a text	3. The entire image	e (of size 3.5 cm by 6.0 cm) consisting		
Sec. Contracts On Section (Contracts)	scanned, and st	g with the signature is required to ored in * .jpg, .jpeg, .gif, .tif, .png for	nat (i) D-Deaf	f
ter the transporter.	on local machine 4. Ensure that the s	e. size of the scanned image is not more th	(Delete the category which	chever is not applicable)
PERCENT CONTRACT SECTION	50 KB.	file is more than 50 KB, then adjust	the improve/not likely to imp	ogressive/non-progressive/likely to prove. Re-assessment of this case is not
100 PM	settings of the	scanner such as the DPI resolution, ng the process of scanning.		mended after a period of years
	6. The applicant ha	as to sign in full in the box provided. Sir	1 Ch /Cmt/Kum	his/her case is percent. meets the following physical
		proof of identity, it must be genuine .and not sufficient. Signature in CAPIT	III requirements for dischar	rge of his/her duties:
full de la	LETTERS is not	permitted. ust be signed only by the applicant and	(ii) PP-can perform work by p	oulling & pushing Yes/No
The first out water to the second of	by any other pers	son.	(iii) L-can perform work by iii	
State of O	wherever neces	rill be used to put on the Hall Ticket a ssary. If the Applicant's signature	(v) B-can perform work by be	ending Yes/No
Compared address on Compared May	1 1	at the time of the examination, does cure on the Hall Ticket, the applicant will	(vii) ST-can perform work by	standing Yes/No
Landerto de Composa de porto. Santo de Composa de porto.	disqualified. Sample Image & Si	, , , , ,	(viii) vv-can perform work by v	seeing Yes/No
Edgli him yo	width= 3.5 cm	ynature	(x) H-can perform work by he (xi) RW-can perform work by	
Market and Art of the State of	Photo	₁ ∱5) (Dr)
Ber (Primaries Course Sa.	THOLO	3.4	Member Memb	per Chairperson
NAMES OF TAXABLE PARTY.			Medical Board Medic	cal Board Medical Board
No. 200 pages areas Codes Branch	tk.	Height=		Countersigned by the Medical Superintendent/
Microsophic and Co.		B E		CMO/Head of Hospital
	Signature	 		(with seal)